

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 7 जनवरी 2020 — पौष 17, शक 1941

श्रम विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 7 जनवरी 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-14/2019/16.— यतः, मेसर्स जिंदल पावर लिमिटेड, रायगढ़ (छत्तीसगढ़ क्षेत्र में कोड संख्या सीजी/18104 के अन्तर्गत) (जो इसमें इसके पश्चात् स्थापना के रूप में निर्दिष्ट है) ने कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जो इसमें इसके पश्चात् अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 17 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अन्तर्गत छूट प्राप्ति हेतु आवेदन किया है;

और यतः, छत्तीसगढ़ शासन की राय में, अभिदाय की दरों के संबंध में उक्त स्थापना के भविष्य निधि के नियम, उक्त अधिनियम की धारा 6 में विनिर्दिष्ट नियमों की अपेक्षा कम अनुकूल नहीं हैं और कर्मचारी, अन्य भविष्य निधि प्रसुविधाओं का भी उपयोग कर रहे हैं जो सब बातों को ध्यान में रखते हुए, कर्मचारियों के लिये उन प्रसुविधाओं की अपेक्षा कम अनुकूल नहीं है, जो उक्त अधिनियम या कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 (जो इसमें इसके पश्चात् योजना के रूप में निर्दिष्ट है) के अन्तर्गत उसी प्रकार के किसी अन्य स्थापना के संबंध में उपबंधित है।

अतएव, उक्त अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ शासन, एतद्वारा, उक्त स्थापना को दिनांक 01-12-2004 से आगामी अधिसूचना जारी होने तक, उक्त योजना के समस्त प्रावधानों के प्रवर्तन से, छूट प्रदान करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
पी.डी. पुरबिया, उप-सचिव.

अटल नगर, दिनांक 7 जनवरी 2020

क्रमांक एफ 10-14/2019/16.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-14/2019/16, दिनांक 7-1-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल महोदय के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
पी.डी. पुरबिया, उप-सचिव.

Atal Nagar, the 7th January 2020

NOTIFICATION

No. F 10-14/2019/16.— Whereas, M/s. Jindal Power Limited, Raigarh (Under code number CG/18104 in Chhattisgarh Region) (hereinafter referred to as the establishment) has applied for exemption under clause (a) of sub-section (1) of Section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (No.19 of 1952), (hereinafter referred to as the Act);

And Whereas, in the opinion of the Government of Chhattisgarh, the rules of its Provident Funds of the said establishment with respect to the rates of contribution are not less favourable than those specified in Section 6 of the said Act and the employees are also in enjoyment of other provident fund benefits which on the whole are not less favourable to the employees than the benefits provided under the said Act or under the Employees Provident Funds Scheme, 1952 (hereinafter referred to as the Scheme) in relation to the employees in any other establishment of similar character.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by the said Act, the Government of Chhattisgarh, hereby, exempts the said establishment from operation of all the provisions of the said Scheme with effect from 01-12-2004 until further notification.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
P.D.PURBIYA, Deputy Secretary.